



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 492]  
No. 492]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 1983/कार्तिक 16, 1905  
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 1983/KARTIKA 16, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1983

क्र० आ० 794(अ).—भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 4 मार्च, 1981 के पृष्ठ 173-176 पर प्रकाशित भूतपूर्व श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या एस-27025/43/80-सी.एल. तारीख 4 मार्च, 1981 का अतिरामण करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

सलाहकार बोर्ड

- |   |            |
|---|------------|
| 1. केन्द्रीय श्रम और पुनर्वास मंत्री                      | अध्यक्ष    |
| 2. केन्द्रीय श्रम और पुनर्वास राज्य मंत्री                | उपाध्यक्ष  |
| 3. सचिव, श्रम विभाग                                       | पदेन सदस्य |
| 4. अपर सचिव, श्रम विभाग                                   | —यथोक्त—   |
| 5. संयुक्त सचिव (श्रम विभाग में बाल श्रम कक्ष के प्रभारी) | —यथोक्त—   |
| 6. श्री एम. एम. दयाल, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण मंत्रालय  | —यथोक्त—   |
| 7. संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय                          | —यथोक्त—   |

- |  |          |
|--|----------|
| 8. श्री पी. सिन्हा, उप सचिव, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास पदेन सदस्य विभाग  |          |
| 9. श्रीमती कलाशपति, संसद सदस्य, 32, मार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली।  | सदस्य    |
| 10. श्री शंकर राय पाटिल, संसद सदस्य, 18, साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली।  | —यथोक्त— |
| 11. श्री डी. बसुमानरी, संसद सदस्य, 12, साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली।  | —यथोक्त— |
| 12. श्री कै० एल० सरकार, भारतीय चाय संघ, रॉयल ऐक्सचेंज, 6, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001.                                  | —यथोक्त— |
| 13. प्रो० बी. बी. कामथ, अखिल भारतीय निर्माता संघ, हीरा महल, 171, शिवाजी पार्क, रोड संख्या-5, बम्बई-16.                       | —यथोक्त— |
| 14. श्री ज्ञान प्रकाश, संयुक्त विकासमूलक, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक संख्या-7, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110022. | —यथोक्त— |
| 15. श्रीमती मनमोहनी सहगल, अध्यक्ष, भारतीय बाल कल्याण परिषद, 4, वीन दयल उप-छाया मार्ग, नई दिल्ली-2.                           | —यथोक्त— |
| 16. श्रीमती सुशील रोहतगी, अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जीवन दीप, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001.                      | —यथोक्त— |

17. डा० इन्द्र सिंह, कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए चलने फिरने शिशुगृह, 1/44, लाजपत नगर III, नई दिल्ली- 110024.	सदस्य	Government hereby constitutes a Central Advisory Board on Child Labour consisting of the following members :—  Advisory Board
18. श्रीमती रोजा देशपांडे, विशेष शिक्षा और कल्याण कार्यकर्ता, शाह निवास, 9, कोहिनूर रोड, दादर, बम्बई-400014.	—यथोक्त—	1. Union Minister for Labour and Rehabilitation Chairman
19. श्रीमती जया अरुणाचलम, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कामकाजी महिला संघ, F-5, भीमसेन गार्डन रोड, मादरापुर, मदरास-600004.	—यथोक्त—	2. Union Minister of State for Labour and Rehabilitation Vice-Chairman
20. श्रीमती टी० केमपन्ना, बी० ए. सामाजिक कार्यकर्ता, संस्था, 14, जी. स्ट्रीट, जोग- पालय, उदयपुर, बंगलूर-8.	—यथोक्त—	3. Secretary, Department of labour Ex-Officio Member
21. श्री सत्य वसुदेव मिश्र, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय निशोः कार्यकर्ता परिषद, 177-वी, आचार्य जगदीश तिम रोड, कलकत्ता-14.	—यथोक्त—	4. Additional Secretary, Department of Labour -do-
22. श्रीमती सुनीला गोपाळ, डाकघर / मन्मदा, जिला अन्धीपा, केरल।	—यथोक्त—	5. Joint Secretary (in charge of Child Labour Cell in the Department of Labour) -do-
23. श्री सत्यन राय चौधरी, 19/2ए, पिताम्बर घटक वेन, कलकत्ता-700027.	—यथोक्त—	6. Shri M.S. Dayal Joint Secretary, Ministry of Social Welfare -do-
बोर्ड के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—		7. Shri..... Joint Secretary, Ministry of Education -do-
1. केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू वर्तमान विधान के कार्य- न्वयन की पुनरीक्षा करना;		8. Shri P. Sinha, Deputy Secretary, Ministry of Industry, Department of Industrial Development -do-
2. कामकाजी बालकों के कल्याण के लिए विधायी उपय और कल्याण उपाय सुझाना।		9. Smt. Kailaspati, Member of Parliament, 32, North Avenue, New Delhi Member
3. कामकाजी बालकों के लिए कल्याण उपायों की प्रगति की पुनरीक्षा; और		10. Shri Shankar Rao Patil, Member of Parliament, 18, South Avenue, New Delhi -do-
4. ऐसे उद्योगों और क्षेत्रों की सिफारिश करना जिनमें बाल श्रमिक पद्धति की उत्पत्ति समाप्ति की जानी चाहिए।		11. Shri D. Basumatari, Member of Parliament, 12, South Avenue, New Delhi. -do-
<b>आदेश</b>		12. Shri K.N. Sircar, Indian Tea Association, Royal Exchange, 6, Netaji Subhas Road, Calcutta 700001. -do-
आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्यों सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों तथा अन्य सभी संबंधित को भेजी जाए।		13. Prof. V.B. Kamath, All India Manufacturers Organisation, Hira Mahal, 171, Sivaji Park, Road No. 5. Bombay 16. -do-
यह भी आदेश दिया जाता है कि यह आदेश भारत के राजपत्र में सम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।		14. Shri Gyan Prakash, Joint Development Commissioner, All India Handicrafts Board, West Block No. 7, R.K. Puram, New Delhi-110002 -do-
[सं० एस-27025/43/80- सी एन.] (मिरीजा ईश्वरन, संपुक्त सचिव)		15. Smt. Manmohini Sehgal, President, Indian Council for Child Welfare, 4, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110022. -do-
<b>MINISTRY OF LABOUR &amp; REHABILITATION</b> (Department of Labour)		
<b>ORDER</b>		
New Delhi, the 7th November, 1983		
S.O. 794(E).—In supersession of Order of Gazette of India in the erstwhile Ministry of Labour No. S-27025/43/80-CL dated 4th March, 1981, published on pages 173-176 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 4th March, 1981, the Central		

16. Smt. Sushila Rohtagi, Chairman, Central Social Welfare Board, Jeevan Deep, Sansad Marg, New Delhi-110001	Member	22. Smt. Susheela Gopalan, P.O. Muhamma, District Alleppey, Kerala	Member
17. Dr. Indira Singh, Mobile Creches for working Mothers' Children, 1/44, Lajpat Nagar, III, New Delhi-110024	-do-	23. Shri Satyen Roy Choudhury, 19/2/A, Pitamber Ghatak Lane, Calcutta-700027	-do-
18. Smt. Roza Deshpande, Prominent Social and Welfare Worker, Shah Niwas, 9, Kohinoor Road, Dadar, Bombay-400014	-do-	The terms of reference of the Board would be to :	
19. Smt. Jaya Arunchalam, President, Natiaol Union of working Women, 55, Bhimsena Garden Road, Mylapore, Madras-600004	-do-	(i) Review the implementation of the existing legislation administered by the Central Government.	
20. Smt. T. Kempamma, Social Worker, No. 14, G. Street, Jagapalaya, Ulsoor, Bangalore-8.	-do-	(ii) Suggest legislative measures as well as welfare measures for welfare of working children.	
21. Shri Lal Bahadur Singh, Chairman, Indian National Council of Young Workers, 177/B, Acharya Jagdish Bose Road, Calcutta-14.	-do-	(iii) Review the progress of welfare measures for working children, and	
		(iv) Recommend the industries and areas where there must be a progressive elimination of child labour.	
		ORDER	
		Ordered that a copy of the Order be communicated to all Ministries/Department of the Government of India, State Go- vernments/Union Territory Administrations and other concerned.	
		Ordered also that the Order be published in the Gazette of India for general information.	
		[No. S-27025/43/80-CL]	
		GIRIJA ESWARAN, Jt. Secy.	

